



### सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, आज, 19 जून को सभी शमशानों को दुबारा खोल रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (19 जून, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को दुबारा खोलने और बहाली योजना के हिस्से के तौर पर, सिटी के सभी शमशान, आज, 19 जून को दुबारा खुल चुके हैं।

शमशान, सोमवार से रविवार, सुबह 7:30 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे।

सिटी, समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीरता से लेती है और शमशानों में, शारीरिक दूरी जैसे उपाय लागू किए जाएंगे। आने वालों (विजिटर्स) को पूरा समय, एक-दूसरे से दो मीटर (छह फुट) दूर रहने का अनुरोध किया जाता है।

दफनाने के दौरान जिन शमशानों में लोगों की अधिकतम सीमा पूरी हो जाएगी, उनके गेट बंद किए जाएंगे। सेवाएं पूरी होने पर, गेट खोले जाएंगे।

सेमेटरी ऑफिस (Cemetery Office) केवल मुलाकात तय करने के लिए ही खुला है। आवश्यक सेवाएं, जैसे दफन करना और दफन करने वाले प्लाट्स की बिक्री, लगातार केवल तय मुलाकात द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे। निवासियों को मुलाकात तय करने के लिए 905.874.2997 पर फोन करने का अनुरोध किया जाता है।

सेमेटरी बाइ-लॉ 83-2016 (Cemetery By-law 83-2016) के मुताबिक, शमशान में कुत्तों को लाने की अनुमति नहीं है।

कोविड-19 (COVID-19) के दौरान, शमशानों के बाहर, स्वास्थ्य और सुरक्षा निर्देशों के साथ, साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। निवासियों से अनुरोध है कि वे किसी भी समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए, कॉर्पोरेट सिक््योरिटी सर्विसिज (Corporate Security Services) को 905.874.2111 पर फोन करें।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन सेमेटरी (Brampton Cemetery) और प्राचीन समय के 25 शमशानों को संभालती है। ब्रैम्पटन के शमशानों की सूची [यहां उपलब्ध \(available here\)](#) है।

### कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय

सिटी का, निवासियों से अनुरोध है कि वे हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें, बार-बार अपने हाथ धोएं और खांसते या छींकते समय मुंह को अपनी कोहनी से ढक लें और गैर-मेडिकल मास्क पहनें। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए



[www.brampton.ca/covid19](http://www.brampton.ca/covid19) पर जाएं और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन व रीजन ऑफ पील (Region of Peel) को संपर्क करने के लिए, किसी भी समय 311 पर फोन करें।

### हवाले

“सिटी के शमशानों को दुबारा खोलना, हमारी, ब्रैम्पटन को दुबारा खोलने और बहाली योजना में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम जानते हैं कि निवासियों के लिए इसका कितना महत्व है, खासकर उनके लिए, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम निवासियों की जरूरतों और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप के द्वारा, हमारी फैसिलिटीज और सुविधाओं को दुबारा खोलने के व्यापक दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए, हम लगातार समुदाय के साथ अर्थपूर्ण विचारविमर्श कर रहे हैं। हम सुरक्षित तरीके से, सिटी की यह महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए शमशानों को दुबारा खोल रहे हैं, ताकि निवासी अपने प्रियजनों को श्रद्धांजलि दे पाएं।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; लीड, रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी की सेवाओं और फैसिलिटीज को सुरक्षित रूप से दुबारा खोलना, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और हमारे स्टाफ की मुख्य प्राथमिकता है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए, लगातार सारे जरूरी कदम उठाएंगे कि हम सिटी की सेवाओं को जनता के लिए, जिम्मेदार और सुरक्षित तरीके से दुबारा खोल रहे हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)